



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/प्रशिक्षण एकक//2020

दिनांक : 01.10.2020

अधिसूचना

विषय : गैर-हिंसात्मक सम्प्रेषण पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम।

गैर-हिंसात्मक सम्प्रेषण अहिंसा, पारस्परिक सम्मान, समझ और करुणा के गांधीवादी मूल्यों पर आधारित प्रभावी संचार और संघर्ष समाधान का एक शक्तिशाली उपकरण है। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर, सीबीएसई द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति (संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था) के सहयोग से गैर-हिंसात्मक सम्प्रेषण पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और छात्र इस पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कोर्स बिना किसी पंजीकरण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क के संचालित किया जा रहा है।

पाठ्यक्रम के दिशा-निर्देश:

1. इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक का प्रयोग करते हुए रजिस्टर कर सकते हैं:
 - प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए पंजीकरण लिंक <https://forms.gle/QAjPAF5tB2hFbAN27>
 - अभिभावकों और छात्रों के लिए पंजीकरण लिंक <https://forms.gle/zhR7C8vgqiLHybJ9A>
2. पाठ्यक्रम सामग्री और चिंतनशील अभ्यास के लिए लिंक पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ 10 अक्टूबर 2020 से ईमेल द्वारा साझा किए जाएंगे।
3. पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा कुछ वेबिनार लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिंक पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ साझा किए जाएंगे।
4. कृपया ध्यान दें कि वेबिनार में भाग लेना पाठ्यक्रम की अनिवार्य शर्त नहीं है।
5. पाठ्यक्रम सामग्री के अध्ययन के बाद चिंतनशील अभ्यास पूरा करने पर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

सीबीएसई से सम्बद्ध सभी विद्यालयाओं के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकाधिक शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को प्रोत्साहित करें।

Rajwajit Saha

(डा. विश्वजीत साहा)

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)



‘शिक्षा सदन’, 17, राऊज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002
‘Shiksha Sadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi –
110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



प्रतिलिपि:- नीचे निर्दिष्ट किये गये संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों को उनके अधिकार-क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित:-

01. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016
02. आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा - 201309
03. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
04. निदेशक जन अनुदेशन (विद्यालय) संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
05. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक सिक्किम-737101
06. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111
07. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर -744101
08. निदेशक, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाज़ा, समुदाय केंद्र, रोहिणी
09. अपर सेना शिक्षा महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
10. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), एफडीआरसी भवन सं. 202, शंकर विहार (एपीएस के समीप), दिल्ली कैंट-110010
11. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीयअधिकारी, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अनुपालन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को प्रेषित किया जाए।
12. बोर्ड के सीओई के सभी निदेशक/प्रमुख/प्रभारी, इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का प्रचार-प्रसार करें।
13. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, सीबीएसई
14. प्रभारी आईटी एकक, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर रखा जाए।
15. जनसंपर्क अधिकारी, सीबीएसई
16. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
17. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
18. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
19. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
20. निदेशक (सीटीईटी) के वरिष्ठ निजी सचिव
21. निदेशक (एडुसेट) के वरिष्ठ निजी सचिव
22. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (कौशल शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
25. प्रभारी आईटी एकक, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर रखा जाए।

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)



'शिक्षा सदन', 17, राऊज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002
'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

